


Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 11 अक्टूबर, 2021

प्रादेशिक सेना स्थापना दविस

9 अक्टूबर, 2021 को 72वाँ 'प्रादेशिक सेना स्थापना दविस' का आयोजन किया गया। प्रादेशिक सेना बल ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और योग्यता हेतु नए बेंचमार्क स्थापित किये हैं। 'सावधानी व शूरता' भारतीय प्रादेशिक सेना का आदर्श वाक्य है। वर्ष 1920 में 'प्रादेशिक सेना' को 'भारतीय प्रादेशिक अधिनियम-1920' के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा दो शाखाओं- भारतीय स्वयंसेवकों के लिये 'भारतीय प्रादेशिक बल' और यूरोपीय एवं एंग्लो-इंडियन के लिये 'सहायक बल' के रूप में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वर्ष 1948 में 'प्रादेशिक सेना अधिनियम' पारित किया गया। इसके पश्चात् वर्ष 1949 में भारत के पहले भारतीय गवर्नर-जनरल 'सी राजगोपालाचारी' ने औपचारिक रूप से 9 अक्टूबर, 1949 को प्रादेशिक सेना का शुभारंभ किया। नियमित सेना के एक हिस्से के रूप में 'प्रादेशिक सेना' (TA) की भूमिका प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करना, नियमित सेना को नागरिक दायित्वों से मुक्त करना और देश की सुरक्षा तथा समग्र समुदाय को प्रभावित करने वाली स्थितियों में आवश्यक सेवा का रखरखाव सुनिश्चित करना है। आवश्यकता पड़ने पर प्रादेशिक सेना नियमित सेना को सैन्य टुकड़ियाँ भी प्रदान करती है। प्रादेशिक सेना की विभिन्न इकाइयों ने उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर और भारत की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमाओं में सक्रिय सेवाएँ प्रदान की हैं। यह बल 29 जुलाई, 1987 से 24 मार्च, 1990 तक श्रीलंका में भारतीय शांति सेना (IPKF) का भी हिस्सा रहा।

फ़िजी

10 अक्टूबर, 2021 को मेलानेशियाई देश फ़िजी की स्वतंत्रता की 51वीं वर्षगाँठ मनाई गई। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर के दिन वर्ष 1970 में 96 वर्ष के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद फ़िजी को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। फ़िजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक देश और द्वीप समूह है। यह न्यूजीलैंड के आकलैंड से करीब 2000 किमी. उत्तर में स्थित है। इसके नज़दीकी पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम में वनूआत, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तुवालु हैं। डच खोजकर्ता 'हाबलि तस्मान' फ़िजी और इसके आसपास के द्वीपों का दौरा करने वाले पहले यूरोपीय थे। बाद में 1830 के दशक में इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू हो गया है। वर्ष 1874 में फ़िजी को ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। इसके पश्चात् वर्ष 1970 में फ़िजी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 'रातू सर कामसि मारा' को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।



अंतरराष्ट्रीय बालिका दविस

दुनिया भर में युवा लड़कियों की आवाज़ को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को 'अंतरराष्ट्रीय बालिका दविस' का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 'अंतरराष्ट्रीय बालिका दविस' की थीम 'डिजिटल जनरेशन, अवर जनरेशन' है। इस दविस की शुरुआत युवा महिलाओं के समक्ष मौजूद चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक गैर-सरकारी, अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में की गई थी। वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित 'महिला विश्व सम्मेलन' के दौरान युवा एवं संवेदनशील महिलाओं पर केंद्रित एक कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई। इसी आवश्यकता के मद्देनज़र 19 दिसंबर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 अक्टूबर को 'अंतरराष्ट्रीय बालिका दविस' के रूप में घोषित करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। गौरतलब है कि लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण जैसे लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों का एक अभिन्न अंग है।

इस प्रकार 'अंतर्राष्ट्रीय बालिका दविस' महिलाओं और लड़कियों, जो कविश्व की आधी आबादी का प्रतनिधित्व करती हैं, को सशक्त बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने पर ज़ोर देता है।

वश्व मानसकि स्वास्थय दविस

प्रतविरष 10 अकतूबर को 'वश्व मानसकि स्वास्थय दविस' का आयोजन कयिा जाता है, जसिका उद्देश्य दुनयिा भर में मानसकि स्वास्थय से संबंघति मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस संबंघ में शकिषा का प्रसार करना है। 'वश्व मानसकि स्वास्थय दविस' पहली बार 10 अकतूबर, 1992 को 'वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ' की वार्षकि गतविधि के रूप में आयोजति कयिा गया था। इस वर्ष 'वश्व मानसकि स्वास्थय दविस' की थीम 'मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड' है। ज्ञात हो कमानसकि स्वास्थय के तहत हमारुा भावनात्मक, मनोवैज्जानकि और सामाजकि कल्याण शामिल होता है। यह हमारुे सोचने, समझने, महसूस करने तथा कार्य करने की कषमता को प्रभावति करता है। गौरतलब है कविश्व स्वास्थय संगठन अपनी स्वास्थय संबंघी परभिषा में शारीरकि स्वास्थय के साथ-साथ मानसकि स्वास्थय को भी शामिल करता है। वभिन्निन सर्वेक्षण बताते हैं कविश्व की लगभग 14% आबादी या प्रत्येक 7 में से 1 व्यक्ती किसी-न-किसी प्रकार के मनोवैज्जानकि विकार से पीड़ति है। मानसकि विकार में 'अवसाद' दुनयिा भर में सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही मानसकि स्वास्थय संबंघी समस्याएँ महिलाओं में सबसे अधिक देखी जाती हैं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-11-october-2021>

